



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 39]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 25, 1982/अश्विन 3, 1904

No. 39]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 25, 1982/ASVINA 3, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
(रक्षा अनुसंधान तथा विकास परिषद)
अधिसूचनाएं
नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1982

का० नि० आ० 239 —केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (सभ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में आबिसर तकनीकी कार्यालय, ओसर टाऊनशिप (नासिक) को, जिसके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है अधिसूचित करता है।

[स० प्रशासन/3007/आ० डी०-हिन्दी अनुभाग]

MINISTRY OF DEFENCE
(Defence Research and Development Organisation)
NOTIFICATIONS
New Delhi, the 3rd September, 1982

S.R.O. 230.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies RESIDENT TECHNICAL OFFICE, OJHAR TOWNSHIP (NASIK) the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. Admin/3007/RD Hindi Cell]

का० नि० आ० 231 —केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (सभ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम 10 के उपनियम

697 GI/82 - 1

(4) के अनुसरण में रक्षा भूभाग अनुसंधान प्रयोगशाला, दिल्ली को, जिसके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है

[स० प्रशासन/3007/आ० डी०-हिन्दी अनुभाग]

S.R.O. 231 —In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies DEFENCE TERRAIN RESEARCH LABORATORY, DELHI, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. Admin/3007/RD-Hindi Cell]

का० नि० आ० 232 —केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (सभ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में कृषि अनुसंधान एकक, अल्मोड़ा (उ० प्र०) को, जिसके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

[स० प्रशासन/3007/आ० डी०-हिन्दी अनुभाग]

एम० चान्द, डी० निदेशक (प्रशासन)

S.R.O. 232.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies AGRICULTURAL RESEARCH UNIT, ALMORA (U.P.), the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. Admin/3007/RD-Hindi Cell]

S. CHAND, Dy. Director (Admin.)

(327)

नई दिल्ली, 7 मितम्बर, 1982

का० नि० आ० 233--- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विद्युत और यांत्रिकी इंजीनियर कोर (औद्योगिक) भर्ती नियम, 1975 को उन बातों के विषय में जिन्हें ऐसे अधीक्षण के पूर्व किया गया है या करने का नाप किया गया है, अधीक्षण करने हुए विद्युत और यांत्रिकी इंजीनियर कोर में औद्योगिकों के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत और यांत्रिकी इंजीनियर कोर (औद्योगिक) भर्ती नियम, 1982 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होता :— ये नियम इससे उपाखण्ड अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट/पदों को लागू होंगे।
3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसका/उनके वेतन वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 से 5 में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं :— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति की बात, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्याप्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आदेशों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

विद्युत और यांत्रिकी इंजीनियर कोर में औद्योगिकों के लिए भर्ती नियम

क्रम पद का नाम सं०	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. यान मैकेनिक (ए० एफ० बी०)	(679)	रक्षा सेवाओं में निधि- नियन समूह 'ग' अराज- पत्रित औद्योगिक	380-12-500- ६० रो०-15-560	अवयव	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक हो जा सकती है)। **	अनिवार्य— (क) मैट्रिक या समतुल्य (ख) समूचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव। ***

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की वृत्ति में लागू होंगी या नहीं

परिबीबीएफ अर्हति यदि कोई हो

भर्ती की पद्धति/भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की वृत्ति में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने से किन परिस्थितियों में सच लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

9	10	11	12	13	14
आयु नहीं	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके तहत हो सकते पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके तहत हो सकते पर संघा भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे यान मैकेनिक (एमबी) जिन्होंने उम्र श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो और वह उम्र प्रयोजन के लिए तब गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर की गई हो। स्थानान्तरण रक्षा सेवाओं में सद्गुण या उच्च पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तम्भ 8 में अधि-कथित अर्हताएं और अनुभव है।	समूह 'ग' विभाग या प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :— 1. अध्यक्ष—कमांडेंट/कमान आफिसर/कमान में अनुभूत रैंक का एक अधिकारी। 2. सदस्य—दो आफिसर/कनिष्ठ कर्म श्रेष्ठ आफिसर फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ जार्जमैन (भाग 1)	लागू नहीं होना

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	टंजीनियरी उप-स्कर मैकेनिक	(417)* रक्षा सेवाओं में सिविलियन 'ग' श्रेणी-पत्रित औद्योगिक।	380-12-500- द० र० 15-560 रु०	अवयव	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। * *	अनिवार्य (क) मैट्रिक या समतुल्य (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यता-प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण-पत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव। * *	
3.	प्रोजेक्टर बनाने वाला	(147)* रक्षा सेवाओं में सिविलियन, समूह 'ग' श्रेणी-पत्रित औद्योगिक	380-12-500- द० र० 15-560 रु०	अवयव	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। * *	अनिवार्य (क) मैट्रिक या समतुल्य (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यता-प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव * * *	

9	10	11	12	13	14
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: हा	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्र. प्रति: ऐसे यान मैकेनिक (एम.बी.) जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो और वह उस प्रयोजन के लिए की गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानांतरण-रक्षा सेवाओं में सदुप या उच्च पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तभ 8 में अधिकथित अर्हताएं और अनुभव है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष—कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अग्र्यून रैंक का एक अधिकारी। 2. सदस्य—दो आफिसर/कनिष्ठ कमीशंड आफिसर/फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ चांजमैन (भाग 1)	लागू नहीं होता
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: हा	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति-ऐसे मशीन मिस्त्री, खराबी, मिलराइट फिटर ग्राइंडिंग प्रोमिज (सूक्ष्म प्रेषक) में से, जिन्होंने उस प्रयोजन में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो और वह प्रयोजन के लिए की गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर की गई हो। स्थानांतरण: रक्षा सेवाओं में सदुप या उच्च पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तभ 8 में अधिकथित अर्हताएं और अनुभव है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष—कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अग्र्यून रैंक का एक अधिकारी। 2. सदस्य—दो आफिसर/कनिष्ठ कमीशंड आफिसर/फोरमैन भाग 1) ज्येष्ठ चांजमैन (भाग 1)	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	उपकरण मैकेनिक (विद्युत)	(120)	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह 'ग' श्रेणी-पत्रित औद्योगिक	380-13-500- द० र० 15-560 रु०	अवयव	18 से 25 वर्ष तक (सरकारी सेवकों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।)	अनिवार्य : (क) मैट्रिक या समतुल्य (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य । (ग) व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव
						*	* * *

9	10	11	12	13	14
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता : हा	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रशस्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रशस्ति—ऐसे बिजली मिस्त्री बिजली मिस्त्री एम बी यान प्रशान्तक मैकेनिक मे से जिन्होंने उस श्रेणी मे 3 वर्ष नियमित सेवा की है और वह इस प्रयोजन के लिए की गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानांतरण रक्षा सेवाओं मे सम- तुल्य या उच्चतर पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तम्भ 8 में अधिकतम अर्हताएं और अनुभव है।	समूह 'ग' विभागीय प्रशस्ति समिति मे निम्नलिखित होंगे। 1 अध्यक्ष - कमांडेंट कमान आफिसर कप्तान से अप्यून रैंक का एक अधि- कारी। 2 सदस्य - दो आफिसर कनिष्ठ कमीशंड आफिसर फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ वार्जमैन (भाग 1)	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
5. बिजली मिस्त्री (ए.एफ.बी.)	(141)	रक्षा सेवाओं में निवि- लियन समूह 'ग' अराजक प्रतिन औद्योगिक	380-12-500- दोरों- 15-560 रु०	प्रचयन	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिक्षित करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) * *	अनिवार्य - (क) मैट्रिक या समतुल्य। (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव। * * *	
6. उपकरण मैके- निक (टेक्नीटोप)	(36)*	रक्षा सेवाओं में निवि- लियन, समूह 'ग' अराजक प्रतिन, औद्योगिक	380-12-500- दोरों- 15-560 रु०	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सर- कार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिक्षित कर- के 35 वर्ष तक की जा सकती है। * *	अनिवार्य - (क) मैट्रिक या समतुल्य (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यता- प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव * * *	

9	10	11	12	13	14
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता : हा	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रशस्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रशस्ति—ऐसे बिजली मिस्त्री बिजली मिस्त्री एम बी यान प्रशान्तक मैकेनिक मे से, जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है और वह इस प्रयोजन के लिए की गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानांतरण - रक्षा सेवाओं मे समतुल्य या उच्चतर पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तम्भ 8 मे अधि- कतम अर्हताएं और अनुभव है।	समूह 'ग' विभागीय प्रशस्ति समिति मे निम्नलिखित होंगे - - 1 अध्यक्ष - कमांडेंट कमान आफिसर कप्तान से अप्यून रैंक का एक अधि- कारी। 2. सदस्य - दो आफिसर कनिष्ठ कमीशंड आफिसर फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ वार्जमैन (भाग 1)	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	स्थानांतरण - रक्षा सेवाओं में समतुल्य या उच्चतर पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तम्भ 8 में अधिकतम अर्हताएं और अनुभव है।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
7. उपकरण मैकेनिक (प्रकाशीय)	(99)	रक्षा सेवाओं में मिलिविलियन, समूह 'ग' अग्रजपन्नित औद्योगिक	380-12-500- दरों-15-560-५०	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवाओं के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल कर- के 35 वर्ष तक की जा सकती है।)**	अनिवार्य -(क) मैट्रिक या समतुल्य। (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यता- प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य (ग) व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव ***	
8 मिनेमा मैकेनिक	(9)	रक्षा सेवाओं में मिलिविलियन, समूह 'ग' अग्रजपन्नित औद्योगिक	380-12-500- दरों-15-560-५०	लागू नहीं होता	18 से वर्ष 25 वर्ष (सरकारी सेवाओं के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)**	अनिवार्य (क) मैट्रिक या समतुल्य। (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यता- प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण के संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव ***	
9. उपकरण मैकेनिक	(74)	रक्षा सेवाओं में मिलिविलियन, समूह 'ग' अग्रजपन्नित औद्योगिक	380-12-500- दरों-15-560-५०	अवयव	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवाओं के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)	अनिवार्य (क) मैट्रिक या समतुल्य। (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यता- प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र या समतुल्य (ग) व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव	
9	10	11	12	13	14		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सोधी भर्ती द्वारा।	स्थानांतरण-रक्षा सेवाओं में सम- तुल्य या उच्चतर पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ 8 में अधिकृत अर्हताएं और अनुभव हैं।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत स्थानांतरण द्वारा जिनके न हो सकने सोधी भर्ती द्वारा	स्थानांतरण - रक्षा सेवाओं में समतुल्य या उच्चतर पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ 8 में अधिकृत अर्हताएं और अनुभव हैं।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं हैं	दो वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिनके न हो सकने पर स्थाना- ंतरण द्वारा जिनके न हो सकने पर सोधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति-ऐसे छोटी साजों में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और वह उस प्रयोजन के लिए खी गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानांतरण- रक्षा सेवाओं में समतुल्य या उच्चतर पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ 8 में अधिक- रहित अर्हताएं और अनुभव हैं।	सामूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति मिति में निम्नलिखित होंगे :--- 1. अध्यक्ष-कमांडेंट कमान आफिसर कमान से असैन्य रैंक का एक अधिकारी 2. सवस्य -दो आफिसर कनिष्ठ कमीशंड आफिसर फोर्गमैन (भाग 1) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग 1)।	लागू नहीं होता		

1	2	3	4	5	6	7	8
10. दूरसंचार मेकेनिक	(379)*	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, समूह 'ग' भराजपत्रित औद्योगिक	380-12-500- दर्रो-15-560 रु०	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)	अनिवार्य - (क) मैट्रिक या समतुल्य। (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव।	
11. क्रिस्टल पाइडर (6)		रक्षा सेवाओं में सिविलियन, समूह 'ग' भराजपत्रित औद्योगिक	380-12-500 दर्रो-15-560 रु०	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)	अनिवार्य - (क) मैट्रिक या समतुल्य। (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव।	
12. शास्त्रज्ञ	(337)*	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, समूह 'ग' भराजपत्रित औद्योगिक	260-6-326- दर्रो-8-350 रु०	अचयन	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।)	अनिवार्य - (क) आठवाँ स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव।	

9	10	11	12	13	14		
लागू नहीं होता	दो वर्ष	100 प्रतिशत स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	स्थानांतरण-रक्षा सेवाओं में सम-तुल्य या उच्चतर पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ 8 में अधिकतम अर्हताएं और अनुभव है।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
लागू नहीं होता	दो वर्ष	100 प्रतिशत स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	स्थानांतरण रक्षा सेवाओं में सम-तुल्य या उच्चतर पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ 8 में अधिकतम अर्हताएं और अनुभव है।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: हाँ	दो वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो, सकने पर स्थानांतरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति-ऐसे पोटकार समूह 'ग' और व्यवसायी मेंटों में जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है और वह उस प्रयोजन के लिए लो गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर होगी। स्थानांतरण—रक्षा सेवाओं में समतुल्य या उच्चतर पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ 8 में अधिकतम अर्हताएं और अनुभव है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे। 1. अध्यक्ष—कमांडेंट/कमान आफिसर कप्तान से अन्यून आफिसर रैंक का एक अधिकारी। 2. सदस्य—दो आफिसर कनिष्ठ कमीशंड आफिसर फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग 1)।	लागू नहीं होता		

1	2	3	4	5	6	7	8
13	अलार्डगर	(373)*	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, समूह 'ग' अराजपत्रित औद्योगिक	260-6-326-द०रो-8-350क०	अवयव	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और प्रादेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है) **	अनिवार्य : (क) आठवां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव। ***
14.	घरीमाज	(9)*	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, समूह 'ग' अराजपत्रित, औद्योगिक	260-6-326-द०रो-8-350क०	अवयव	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और प्रादेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है) **	अनिवार्य : (क) आठवां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य। (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव। ***

9	10	11	12	13	14
आयु नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	दो वर्ष	100 प्रतिशत प्रशिक्षण द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रशिक्षण : ऐसे कोटकार और ताप-कार या व्यवसायी मेटों में जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है और वह उस प्रयोजन के लिए ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानांतरण-रक्षा सेवाओं में समतुल्य या उच्चतर पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ 8 में अधिकथित अर्हताएं और अनुभव है।	समूह 'ग' विभागीय प्रशिक्षण समिति में निम्नलिखित होंगे : 1. अध्यक्ष—कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अन्यून रैंक का एक अधिकारी। 2. सदस्य—दो आफिसर कनिष्ठ कमीशंड आफिसर फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग 1)	लागू नहीं होता
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	दो वर्ष	100 प्रतिशत प्रशिक्षण द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रशिक्षण : ऐसे व्यवसायी मेटों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है और वह उस प्रयोजन के लिए ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानांतरण-रक्षा सेवाओं में समतुल्य या उच्चतर पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ 8 में अधिकथित अर्हताएं और अनुभव है।	समूह 'ग' विभागीय प्रशिक्षण समिति में निम्नलिखित होंगे : 1. अध्यक्ष : कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अन्यून रैंक का एक अधिकारी। 2. सदस्य : दो आफिसर कनिष्ठ कमीशंड आफिसर फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग 1)	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
15	प्रशिक्षक मैकेनिक	(7)*	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह 'ग' अराजपत्रित औद्योगिक	260-6-326-द०रो-8-350क०	अवयव	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और प्रादेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। **	अनिवार्य : (क) आठवां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव। ***

9	10	11	12	13	14
आयु नहीं शैक्षिक अर्हताएं हैं	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके तहत हो सकने पर स्थापना- करण द्वारा जिसके तहत हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति इस व्यवसाय के ऐसे व्यवसायी में, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और वह इस प्रयोजन के लिए या गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो स्थापनाकरण रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ 8 में अधि- कथित अर्हताएं और अनुभव हैं।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे 1 अध्यक्ष कमांडेंट/कमान ऑफिसर/कप्तान से अभ्युक्त रैंक का एक अधिकारी। 2 सदस्य दो ऑफिसर/ कनिष्ठ कमीशंड ऑफि- सर/फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ चांजमैन (भाग 1)	सांगू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
16	खरदी (टर्नर)	(569) * रक्षा सेवाओं में निवि- लियन समूह 'ग' अराज- पत्रित औद्योगिक	260-6-326-द०रो०- 8-350 रु०	अचयन	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार निधिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है) **	अनिवार्य (क) आठवां स्तर उतर्ण या समतुल्य (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यता- प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव। ***	

9	10	11	12	13	14
आयु नहीं शैक्षिक अर्हताएं हैं	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके तहत हो सकने पर स्थापना- करण द्वारा जिसके तहत हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति इस व्यवसाय के ऐसे व्यवसायी में, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और वह इस प्रयोजन के लिए या गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थापनाकरण-रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ 8 में अधि- कथित अर्हताएं और अनुभव हैं।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे -- 1 अध्यक्ष कमांडेंट/कमान ऑफिसर/कप्तान से अभ्युक्त रैंक का एक अधि- कारी। 2 सदस्य दो ऑफिसर/ कनिष्ठ कमीशंड ऑफि- सर/फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ चांजमैन (भाग 1)	सांगू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
17	इलेक्ट्रोनिक्स- जिटर	(62) * रक्षा सेवाओं में विशेषित समूह 'ग' अराजपत्रित औद्योगिक	260-6-326-द०रो०- 8-350 रु०	अचयन	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार निधिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। **	अनिवार्य (क) आठवां स्तर उतर्ण या समतुल्य। (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यता- प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव। ***	

9	10	11	12	13	14
प्रायः नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हाँ	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति :—इस व्यवसाय के ऐसे व्यवसायी मेट, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और वह इस प्रयोजन के लिए सी गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानांतरण : रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ 8 में अधिकृत अर्हताएं और अनुभव है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :— 1. अध्यक्ष—कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अग्र्यून रैंक का एक अधिकारी। 2. सदस्य—दो आफिसर/कनिष्ठ कमीशंड आफिसर/फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग 1)।	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7	8
18	फोटोस्टेट आपरेटर	*	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, समूह 'ग' अराजपत्रित औद्योगिक	260-6-326-बरो- 8-350 रु०	अवधन	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और प्रादेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। **	अतिवार्य : (क) आठवां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी माध्यमाप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव। ***

9	10	11	12	13	14
प्रायः नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हाँ	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति :—इस व्यवसाय के ऐसे व्यवसायी मेट, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और वह इस प्रयोजन के लिए सी गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानांतरण :—रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ 8 में अधिकृत अर्हताएं और अनुभव है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :— 1. अध्यक्ष—कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अग्र्यून रैंक का एक अधिकारी। 2. सदस्य—दो आफिसर/कनिष्ठ कमीशंड आफिसर/फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग 1)।	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	ब्लॉक निर्माता	5*	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, समूह 'ग' अराजपत्रित औद्योगिक	260-6-326 बरो- 8-350 रु०	अवधन	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और प्रादेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। **	अतिवार्य : (क) आठवां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी माध्यमाप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव। ***

9	10	11	12	13	14
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हाँ	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : इस व्यवसाय के ऐसे व्यवसायी मेट, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और वह इस प्रयोजन के लिए ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हों स्थानांतरण : रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्वीय 8 में अधिकतम अर्हताएं और अनुभव है	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे : 1. अध्यक्ष--कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अन्यून एक का एक अधिकारी 2. सदस्य--दो आफिसर/कनिष्ठ कमीशनड आफिसर/फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग 1)	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7	8
20	बिजली मिस्त्री (एम० बी०)	172	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह 'ग' अराजकबलित औद्योगिक	260-6-326-द० री० 8-350 रु०	अचयन	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है) **	अतिरिक्त : (क) छाठवा स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य, (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यता-प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रमाणपत्र या समतुल्य; (ग) व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव। ***

9	10	11	12	13	14
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हाँ	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : इस व्यवसाय के ऐसे व्यवसायी मेट, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और वह इस प्रयोजन के लिए ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हों स्थानांतरण : रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्वीय 8 में अधिकतम अर्हताएं और अनुभव है	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे : 1. अध्यक्ष--कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अन्यून एक का एक अधिकारी 2. सदस्य--दो आफिसर/कनिष्ठ कमीशनड आफिसर/फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग 1)	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7	8
21	मशीन मिस्री	212	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह 'ग' अराजकबलित औद्योगिक	260-6-326-द० री० 8-350 रु०	अचयन	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। **	अतिरिक्त : (क) छाठवा स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य, (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यता-प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रमाणपत्र या समतुल्य, (ग) व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव। ***

9	10	11	12	13	13
प्रान्ति					
आयु नहीं शैक्षिक अर्हताएं हा	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रान्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थाना- नरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	इस व्यवसाय के ऐसे समूह ग विभागीय प्रान्ति व्यवसायी मेट जिन्होंने उस समिति में निम्नलिखित श्रेणी में तीन वर्ष नियमित होंगे सेवा का है और वह इस 1 अध्यक्ष--कमांडेंट/कमान प्रयोजन के लिए सी गई विभा- गीय जाच परीक्षा के आधार से पर हा।	अध्यक्ष--कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अन्यून रैंक का एक अधिकारी।	लागू नहीं होता
स्थानान्तरण					
रक्षा सेवाओं में 2 सदस्य--दो आफिसर/ उच्चतर या समतुल्य पद कनिष्ठ कमीशंड आफि- धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति सर/फोरमैन (भाग 1) जिनके पास स्तभ 8 में अधि- ज्येष्ठ चार्जमैन कथित अर्हताएं और अनुभव (भाग 1) है					

1	2	3	4	5	6	7	8
22	यान मेकेनिक (एम बी)	1806	रक्षा सेवाओं में सिवि- लियन समूह 'ग' अराजपक्षित औद्योगिक	260-6-326-द० रा० 8-350 रु०	अवयव	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किंग गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार नियमित करके 35 वर्ष तक की जा सकती है) * *	अनिवार्य (क) आठवां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मास्यताप्राप्त औद्यो- गिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव। * * *

9	10	11	12	13	14
प्रान्ति					
आयु नहीं शैक्षिक अर्हताएं हा	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रान्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थाना- नरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	इस व्यवसाय के ऐसे समूह 'ग' विभागीय प्रान्ति व्यवसायी मेट जिन्होंने उस समिति में निम्नलिखित श्रेणी में तीन वर्ष नियमित होंगे सेवा की है और वह इस 1 अध्यक्ष--कमांडेंट/कमान प्रयोजन के लिए सी गई विभा- गीय जाच परीक्षा के आधार से पर हा।	अध्यक्ष--कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अन्यून रैंक का एक अधिकारी।	लागू नहीं होता
स्थानान्तरण					
रक्षा सेवाओं में 2 सदस्य--दो आफिसर/ उच्चतर या समतुल्य पद कनिष्ठ कमीशंड आफि- धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति सर/फोरमैन (भाग 1) जिनके पास स्तभ 8 में अधि- ज्येष्ठ चार्जमैन भाग 1 कथित अर्हताएं और अनुभव है					

1	2	3	4	5	6	7	7
23	मिलरिट	56	रक्षा सेवाओं में सिवि- लियन समूह 'ग' अराजपक्षित औद्योगिक	260-6-326-द० रा० 8-350 रु०	अवयव	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार नियमित करके 35 वर्ष तक की जा सकती है) * *	अनिवार्य (क) आठवां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य। (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मास्यताप्राप्त औद्यो- गिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव। * * *

9	10	11	12	13	14
आयु नहीं शैक्षणिक अर्हताएं हैं	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति इस व्यवसाय के ऐसे व्यवसायी, मेट, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और वह इस प्रयोजन के लिए ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानांतरण रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तभ 8 में अधिकतम अर्हताएं और अनुभव है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे 1 अध्यक्ष—कमांडेंट/कमान ऑफिसर/कप्तान से अन्यून रैंक का एक अधिकारी। 2 सदस्य—दो ऑफिसर/ कनिष्ठ कमीशंड ऑफि- सर/फार्मैन (भाग 1) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग 1)	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
24	समूहकार	26	रक्षा सेवान्नों में सिविलियन समूह 'ग' अराजपत्रित औद्योगिक	260-6-326-द०रो० 8-350 रु०	अवयव	18 से 26 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)	अनिवार्य (क) आठवां स्तर उतीर्ण या समतुल्य , (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य, (ग) व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव । * * *

9	10	11	12	13	14
आयु नहीं शैक्षणिक अर्हताएं हैं	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति इस व्यवसाय के बढई और सयोजक (उचायनर) या व्यवसायी मेट, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और वह इस प्रयोजन के लिए ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानांतरण : रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तभ 8 में अधिकतम अर्हताएं और अनुभव है।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे 1 अध्यक्ष—कमांडेंट/कमान ऑफिसर/कप्तान से अन्यून रैंक का एक अधिकारी 2 सदस्य—दो ऑफिसर/ कनिष्ठ कमीशंड ऑफिसर/ फार्मैन (भाग-1) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग 1)	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
25	पैकर विशेष	18	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह 'ग' अराजपत्रित औद्योगिक	260-6-326-द०रो० 8-350 रु०	अवयव	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।)	अनिवार्य (क) छाठवां स्तर उतीर्ण या समतुल्य। (ख) समुचित कार्यक्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव। * * *

9	10	11	12	13	14
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: हाँ	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्था- नान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति— इस व्यवसाय के बड़े और संयोजक (जवायनर) या ऐसे व्यवसायी मेट जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और वह इस प्रयोजन के लिए ली गई विभागीय जाच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानान्तरण — रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ 8 में अधि- कथित अर्हताएं और अनुभव हैं।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे:— 1. अध्यक्ष— कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अन्यून रैंक का एक अधि- कारी। 2. सदस्य— दो आफिसर/ कनिष्ठ कमीशंड आफिसर/ फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग 1)।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
26. काष्ठ खराबी और मशीन मिस्त्री	(24)	रक्षा सेवाओं में सिवि- लियन समूह 'ग' अराजपत्रित औद्योगिक	260-6-326-दोरों- 8-350 रु०	अचयन	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है) **	अनिवार्य:— (क) आठवां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र या समतुल्य (ग) व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव ***	

9	10	11	12	13	14
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: हाँ	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति— इस व्यवसाय के बड़े और संयोजक (जवायनर) या व्यवसायी मेट, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और वह इस प्रयोजन के लिए ली गई विभागीय जाच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानान्तरण — रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ 8 में अधि- कथित अर्हताएं और अनुभव हैं।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे:— 1. अध्यक्ष— कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अन्यून रैंक का एक अधि- कारी। 2. सदस्य— दो आफिसर/ कनिष्ठ कमीशंड आफिसर/ फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग 1)।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
27. फिटर	(1437)*	रक्षा सेवाओं में सिवि- लियन समूह 'ग' अराजपत्रित औद्योगिक	260-6-326-दोरों- 8-350 रु०	अचयन	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है) **	अनिवार्य:— (क) आठवां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य (ग) व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव। ***	

9	10	11	12	13	14
आयु नहीं शैक्षिक अर्हताएं हा	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रीप्रति द्वारा जिसके न हा सकने पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हा सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रीप्रति एमे उत्कर्षक (हाथ) पाठ्यकार या व्यवसायी मेटा (फिटने) मे स जिन्होंने उस श्रेणी मे तीन वर्ष सेवा की हा और यह इस प्रयोजन के लिए ती गह विभागीय जाच परीक्षा के आधार पर हो।	समूह ग विभागीय प्रीप्रति समिति मे निम्नलिखित हागे -- 1 अध्यक्ष-कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अस्यून रैंक का एक अधिकारी। 2 सदस्य-दो आफिसर/कनिष्ठ कमीशंड आफिसर/फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ जार्जमैन (भाग 1)।	सागू नहीं होता
			स्थापनाकरण - रक्षा सेवाओं मे उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तभ 8 मे अधि-कथित अर्हताएं और अनुभव हैं।		

1	2	3	4	5	6	7	8
28 ग्राइंडर प्रीमिजन (सूक्ष्म पेपक)	(51)*	रक्षा सेवाओं मे सिविलियन समूह "ग" भराजपत्रित औद्योगिक	260-6 326-40 रों 8-350 रु०	अभ्ययन	18 से 25 वर्ष (सर-कारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनु-देशा और आदेशों के अनुसार जियिल करके 15 वर्ष तक की जा सकती है)**	अनिवार्य -- (क) आठवां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य। (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय मे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान मे प्रमाण-पत्र या समतुल्य (ग) व्यवसाय मे दो वर्ष का अनुभव।***	

9	10	11	12	13	14
आयु नहीं शैक्षिक अर्हताएं हा	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रीप्रति द्वारा जिसके न हा सकने पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रीप्रति -- इस व्यवसाय के ऐसे व्यवसायी मेटो मे से जिन्होंने उस श्रेणी मे 3 वर्ष नियमित सेवा की है और यह इस प्रयोजन के लिए ती गह विभागीय जाच परीक्षा के आधार पर हा।	समूह 'ग' विभागीय प्रीप्रति समिति मे निम्नलिखित हागे - 1 अध्यक्ष- कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अस्यून रैंक का एक अधि-कारी। 2 सदस्य - दो आफिसर/कनिष्ठ कमीशंड आफिसर/फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ जार्जमैन (भाग 1)।	सागू नहीं होता
			स्थापनाकरण - रक्षा सेवाओं मे उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तभ 8 मे अधि-कथित अर्हताएं और अनुभव हैं।		

1	2	3	4	5	6	7	8
29 अपरेटर टायर मरम्मत संयंत्र	(78)*	रक्षा सेवाओं मे सिविलियन समूह 'ग' भराजपत्रित औद्योगिक	225-5-260-6-290 40 रों 6-308 रु०	अभ्ययन	18 से 25 वर्ष (सर-कारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनु-देशा और आदेशों के अनुसार जियिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)**	अनिवार्य -- (क) आठवां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य। (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय मे किसी मान्यता-प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मे प्रमाणपत्र या समतुल्य (ग) व्यवसाय मे एक वर्ष का अनुभव ***	

9	10	11	12	13	14		
प्रायः तृप्ति शैक्षणिक अर्हताएं हा	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्राप्ति द्वारा जिसके न हा सकने पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हा सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति - इस व्यवसाय के ऐसे व्यवसायी मेटो में से, जिन्होंने इस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो और यह इस प्रयोजन के लिए ली गई विभा- गीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानांतरण - रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्नातक 8 में अधि- कथित अर्हताएं और अनुभव हैं।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे -- 1 अध्यक्ष- कमांडेंट/कमान ऑफिसर/कप्तान से अन्य एक का एक अधि- कारी। 2 सदस्य- दो ऑफिसर/ कनिष्ठ कमीशंड ऑफिसर[फोर्मेन (भाग 1) ग्रेड चार्जमेंट (भाग 1)।	लागू नहीं होता		
1	2	3	4	5	6	7	8
30 टिन और ताँबे कार	(323)*	रक्षा सेवाओं में निवि- लियन समूह 'ग' अराजपत्रित औद्योगिक	225-5-260-6-290- द०रो०-6-308५०	अचयन		18 से 25 वर्ष (सर- कारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिक्षित करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)***	अनिवार्य-- (क) आठवां स्तर उन्नीस या समतुल्य (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र या समतुल्य (ग) व्यवसाय में एक वर्ष का अनुभव।***
31 लोहकार	(324)*	रक्षा सेवाओं में निवि- लियन समूह 'ग' अराजपत्रित औद्योगिक	225-5-260-6-290- द०रो०-6-308५०	अचयन		18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिक्षित करके 35 वर्ष तक की जा सकती है। समतुल्य (ग) व्यवसाय में एक वर्ष का अनुभव***	(क) आठवां स्तर उन्नीस या समतुल्य (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यता- प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य (ग) व्यवसाय में एक वर्ष का अनुभव***
32 बर्तई और संयोजक	(465)*	रक्षा सेवाओं में निवि- लियन समूह 'ग' अराजपत्रित औद्योगिक	225-5-260-6-290- द०रो०-6-308५०	अचयन		18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिक्षित करके 35 वर्ष तक की जा सकती है) **	(क) आठवां स्तर उन्नीस या समतुल्य (ख) समुचित कार्यक्षेत्र या व्यव- साय में किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र या समतुल्य (ग) व्यवसाय में एक वर्ष का अनुभव
33 पोतकार	()*	रक्षा सेवाओं में निवि- लियन समूह 'ग' अराजपत्रित औद्योगिक	225-5-260-6-290- द०रो०-6-308५०	अचयन		18 से 25 वर्ष (सर- कारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनु- देशों और आदेशों के अनुसार शिक्षित करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।)***	अनिवार्य (क) आठवां स्तर उन्नीस या समतुल्य (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य (ग) व्यवसाय में एक वर्ष का अनुभव***

9	10	11	12	13	14
प्राप्त नहीं शैक्षिक अर्हताएं हा	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्राप्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति - इस व्यवसाय के हथौड़े वाले या व्यवसायी मेटो में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है और वह उस प्रयोजन के लिए ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानांतरण - रक्षा सेवाओं में समतुल्य या उच्चतर पद धारण करने वाले व्यक्ति जिनके पास स्तभ 8 में अधिक्थित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे — 1 अध्यक्ष- कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अन्यून रैंक का एक अधि-कारी। 2 सदस्य- दो आफिसर/कनिष्ठ कमीशंड आफिसर/फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग 1)।	लागू नहीं होता।
प्राप्त नहीं शैक्षिक अर्हताएं हा	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति- इस व्यवसाय के हथौड़े वाले या व्यवसायी मेटो में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है और वह उस प्रयोजन के लिए ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानांतरण - रक्षा सेवाओं में समतुल्य या उच्चतर पद धारण करने वाले व्यक्ति जिनके पास स्तभ 8 में अधिक्थित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में से निम्नलिखित होंगे — 1 अध्यक्ष- कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अन्यून रैंक का एक अधि-कारी। 2 सदस्य - दो आफिसर /कनिष्ठ कमीशंड आफिसर/फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग 1)।	लागू नहीं होता
प्राप्त नहीं शैक्षिक अर्हताएं हा	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	इस व्यवसाय के पैकर माधारण या व्यवसायी मेटो में से, जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है और वह उस प्रयोजन के लिए ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानांतरण - रक्षा सेवाओं में समतुल्य या उच्चतर पद धारण करने वाले व्यक्ति जिनके पास स्तभ 8 में अधिक्थित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।	समूह 'ग' विभागीय प्राप्ति समिति में निम्नलिखित होंगे - 1 अध्यक्ष कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अन्यून रैंक का एक अधि-कारी। 2 सदस्य- दो आफिसर /कनिष्ठ कमीशंड आफिसर/फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग 1)।	लागू नहीं होता
प्राप्त नहीं शैक्षिक अर्हताएं हा	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्राप्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति- इस व्यवसाय के व्यवसायी मेटो (पोल वार) में से, जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो और वह उस प्रयोजन के लिए ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानांतरण- रक्षा सेवाओं में समतुल्य या उच्चतर पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तभ 8 में अधिक्थित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।	समूह 'ग' विभागीय प्राप्ति समिति में निम्नलिखित होंगे - 1 अध्यक्ष- कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अन्यून रैंक का एक अधि-कारी। 2 सदस्य - दो आफिसर /कनिष्ठ कमीशंड आफिसर/फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग 1)।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
34. उत्कीर्णक (हाथ)	(6)*	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह 'ग' अराजपक्षित औद्योगिक	225-5-260-6-290-४००-6-308 ४०	अवयव	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। * *	अनिवार्य-(क) आठवां स्तर उन्नीस या समतुल्य (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यताप्राप्त या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में एक वर्ष का अनुभव। * * *	आठवां स्तर उन्नीस या समतुल्य (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यताप्राप्त या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में एक वर्ष का अनुभव। * * *
35. सचेंकार	(50)*	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह 'ग' अराजपक्षित औद्योगिक	225-5-260-6-290-४००-6-308 ४०	अवयव	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। * *	अनिवार्य-(क) आठवां स्तर उन्नीस या समतुल्य (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यताप्राप्त या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में एक वर्ष का अनुभव। * * *	आठवां स्तर उन्नीस या समतुल्य (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यताप्राप्त या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में एक वर्ष का अनुभव। * * *

9	10	11	12	13	14
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोफ़िटि द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोफ़िटि—उत्कीर्णक (यंत्र) या इस व्यवसाय के व्यवसायी भेंटों (उत्कीर्णक हाथ) में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है और वह उस प्रयोजन के लिए ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानान्तरण-रक्षा सेवाओं में समतुल्य या उच्चतर पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ 8 में अधिकतम अर्हताएं और अनुभव है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोफ़िटि समिति में निम्न-लिखित होंगे 1. अध्यक्ष—कमान्डेंट/कमान-आफिसर/कप्तान से अग्र्युन रैंक का एक अधिकारी। 2. सदस्य—दो आफिसर/कनिष्ठ कमीशंड आ-फिसर/फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ जार्जमैन (भाग-1)।	लागू नहीं होता
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोफ़िटि द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोफ़िटि—इस व्यवसाय के व्यवसायी भेंटों से से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है और वह उस प्रयोजन के लिए ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानान्तरण-रक्षा सेवाओं में समतुल्य या उच्चतर पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ 8 में अधिकतम अर्हताएं और अनुभव है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोफ़िटि समिति में निम्न-लिखित होंगे 1. अध्यक्ष—कमान्डेंट/कमान-आफिसर/कप्तान से अग्र्युन रैंक का एक अधिकारी। 2. सदस्य—दो आफिसर/कनिष्ठ कमीशंड आफिसर/फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ जार्जमैन (भाग-1)।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
36. राजभिन्नी	(19)*	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह 'ग' अराजपक्षित औद्योगिक	225-5-260-6-290-४००-6-308 ४०	अवयव	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। * *	(क) अनिवार्य : आठवां स्तर उन्नीस या समतुल्य (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव। * * *	आठवां स्तर उन्नीस या समतुल्य (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव। * * *

8	10	11	12	13	14
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: हैं	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति इस व्यवसाय से व्यवसायी मेटो में से जिन्होंने उम्र श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है और यह इस प्रयोजन के लिए ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानान्तरण रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ 8 में अधिकथित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्न-लिखित होंगे 1. अध्यक्ष—कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अस्यूम रैंक का एक अधिकारी। 2. सदस्य—दो आफिसर/कनिष्ठ कमांडेंट आफिसर/फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग 1)।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
37. इंजन चालक	(1)*	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह "ग" अराजपक्षित औद्योगिक	225-5-260-6-290-50 रो-6-308 50	अभ्ययन	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। * *	(क) अनिवार्य : आठवां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य। (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यता-प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव। * * *	स्तर

9	10	11	12	13	14
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: हैं	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति स्टोकर या व्यवसायी मेटो (इंजन चालक) में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है और यह इस प्रयोजन के लिए ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानान्तरण:—रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ 8 में अधिकथित अर्हताएं और अनुभव है।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्न-लिखित होंगे 1. अध्यक्ष—कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अस्यूम रैंक का एक अधिकारी। 2. सदस्य—दो आफिसर/कनिष्ठ कमीशंड आफिसर/फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग 1)	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
38. वायुमर परिवार	18*	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह "ग" अराजपक्षित औद्योगिक	225-5-260-6-290-50 रो-6-308 50	अभ्ययन	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। * *	(क) अनिवार्य : आठवां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य। (ख) समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यता-प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य। (ग) व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव। * * *	स्तर

9	10	11	12	13	14
आयु : नहीं शैक्षिक ग्रहण : हाँ	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्था- नांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति स्टांकर या व्यवसायिक मेटों (बायस्टर परिस्तर) में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है और यह इस प्रयोजन के लिए ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानान्तरण :—रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य या पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ 8 में अधिकतम शैक्षिक ग्रह- ण और अनुभव हैं।	समूह "ग" विभागीय प्रो- न्नति समिति में निम्न- लिखित होंगे 1. अध्यक्ष—कमांडेंट/कमान ऑफिसर/कप्तान से अन्यून रैंक का एक अधिकारी। 2. सदस्य—दो ऑफिसर/ कनिष्ठ कमीशंड आ- फिसर/फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ कार्यमैन (भाग 1)।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
39. व्यवसाय मेट (क्रम सं० 12 से 38 तक के व्य- वसाय)	विभिन्न प्रवर्गों के व्यवसा- यियों के बचसे धारित किए जाने वाले। जब व्य- वसायी मेटों द्वारा पद धारित किए गए हों तब व्यवसा- यियों की सस्मान संख्या में पद प्राप्ति- गति रख जाएंगे।	रक्षा सेवाओं में निवि- लियन, समूह 'घ' अराजपक्षित औद्योगिक	210-4-226- ४० रो०-4-250- ४० रो०-5-290 ४०	अभ्ययन	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनु- देशों और आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। **	(क) घाटवां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य। (ख) किसी माय्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में प्रमाणपत्र या समतुल्य।	
40 उपस्करण और जूता सम्मनकर्ता	97	*रक्षा सेवाओं में निवि- लियन समूह "घ" अराजपक्षित औद्योगिक	210-4-226- ४० रो०-4-250- ४० रो०-5-290 ४०	अभ्ययन	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनु- देशों और आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। **	(क) घाटवां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य। (ख) किसी माय्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से समुचित कार्यक्षेत्र या व्यवसाय में प्रमाणपत्र या समतुल्य।	

9	10	11	12	13	14
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएँ: हाँ टिप्पणी: शैक्षिक अर्हताएँ उन अर्हता प्राप्त श्रमिकों/मजदूरों की बाबत लागू नहीं होगी, जो विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी (प्रौद्योगिक) कोर भर्ती नियम, 1982 के पूर्व भर्ती किए गए हैं।	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति ऐसे श्रमिकों/मजदूरों में से, जिनमें उस श्रेणी में से, तीन वर्ष नियमित सेवा की है और वह इस प्रयोजन के लिए सी गई विभागीय जाच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानांतरण रक्षा सेवाओं में उच्चतर या सम- तुल्य धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तम्भ 8 में अधिकथित अर्हताएँ हैं।	समूह "ब" विभागीय प्रो- न्नति समिति में निम्न- लिखित होंगे 1. अध्यक्ष—कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अन्यूर रैंक का एक अधि- कारी। 2. सदस्य—दो आफिसर, कनिष्ठ की कमीशन्ड आफिसर फोरमैन (भाग 1) (ज्येष्ठ वार्जमेंट (भाग 1))	लागू नहीं होता
आयु: हा शैक्षिक: अर्हताएँ: नहीं	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति ऐसे श्रमिकों/मजदूरों में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है और यह इस प्रयोजन के लिए सी गई विभागीय जाच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानांतरण रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तम्भ 8 में अधिकथित अर्ह- ताएँ हैं।	समूह "ब" विभागीय प्रो- न्नति समिति में निम्न- लिखित होंगे। 1. अध्यक्ष—कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अन्यूर रैंक का एक अधिकारी। 2. सदस्य—दो आफिसर/ कनिष्ठ कमीशन्ड आफिसर/ फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ वार्जमेंट (भाग 1)।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
41. हथौड़ेवाला	4*	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह "ब" अराजपन्नित प्रौद्योगिक	210-4-226- ब० रो०-4-250- ब० रो०-5-290 ब०	अवयन	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनु- देशों और प्रादेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। **	(क) घाठवा स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य। (ख) किसी मान्यताप्राप्त प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में प्रमाणपत्र या समतुल्य।	
42. जुग हैंड	1*	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह "ब" अराजपन्नित प्रौद्योगिक	210-4-226- ब० रो०-4-250- 5-290 ब०	अवयन	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनु- देशों और प्रादेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। **	(क) घाठवा स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य। (ख) किसी मान्यताप्राप्त प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में प्रमाणपत्र या समतुल्य। (क) घाठवा स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य।	
43. साधारण चक्र	(24)*	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह "ब" अराजपन्नित प्रौद्योगिक	210-4-226- ब० रो०-4-250- 5-290 ब०	अवयन	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनु- देशों और प्रादेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। **	(क) घाठवा स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य। (ख) किसी मान्यताप्राप्त प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में प्रमाणपत्र या समतुल्य।	

9	10	11	12	13	14
आयु: हां शैक्षिक अर्हताएं: नहीं	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हां सकने पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे अधिकारी/मजदूरों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और वह इस प्रयोजन के लिए ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ 8 में अधिकतम अर्हताएं हैं।	समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :— 1. अध्यक्ष/कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अग्र्यून रैंक का एक अधिकारी। 2. सदस्य—दो आफिसर / कनिष्ठ कमीशंड आफिसर/फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग I)	लागू नहीं होता
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: हां	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे अधिकारी/मजदूरों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और वह इस प्रयोजन के लिए ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ 8 में अधिकतम अर्हताएं हैं।	समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे : 1. अध्यक्ष-कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अग्र्यून रैंक का एक अधिकारी। 2. सदस्य—दो आफिसर / कनिष्ठ कमीशंड आफिसर/फोरमैन (भाग I) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग I)।	लागू नहीं होता
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: नहीं	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे अधिकारी/मजदूरों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और वह इस प्रयोजन के लिए ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानान्तरण :— रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ 8 में अधिकतम अर्हताएं हैं।	समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :— 1. अध्यक्ष—कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अग्र्यून रैंक का एक अधिकारी— 2. सदस्य—दो आफिसर/कनिष्ठ कमीशंड आफिसर/फोरमैन (भाग 1) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग I)।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
44. स्टोकर	(7)*	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह "घ" अग्रजपत्रित औद्योगिक	210-4-226-ध०री०- 4-250-ध०री०-5- 290 ४०	अवयव		18 से 25 वर्ष (क) आठवां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य। (ख) किसी माध्यमताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में समुचित कार्य-क्षेत्र या व्यवसाय में प्रमाणपत्र या समतुल्य।	
						द्वारा जारी किये गये अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।	

9	10	11	12	13	14
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हा	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति : ऐसे अधिकारी/मजदूरों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और वह इस प्रयोजन के लिये ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो । स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं में उच्चतर या सम-तुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तम्भ 8 में अधिकतम अर्हताएं हैं ।	समूह "ब" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :— 1. अध्यक्ष—कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अन्यून रैंक का एक अधिकारी । 2. सदस्य—दो आफिसर/कनिष्ठ कमीशंड आफिसर/फोरमैन (भाग I) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग I) ।	लागू नहीं होता ।

1	2	3	4	5	6	7	8
45. जिल्दसाज	(7)*	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह "घ" अराजपत्रित औद्योगिक	210-4-226-ब०रो०-5-290 ५०	अचयन	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों और प्रादेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है) । **	(क) आठवां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य (ख) किसी माध्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से समुचित कार्य-क्षेत्र या व्यवसाय में प्रमाणपत्र या समतुल्य ।	
46. दर्जी	(10)*	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह "घ" अराजपत्रित औद्योगिक	210-4-226-ब०रो०-5-290 ५०	अचयन	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों और प्रादेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है) । **	(क) आठवां स्तर उत्तीर्ण या सम-तुल्य । (ख) किसी माध्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से समुचित कार्य-क्षेत्र या व्यवसाय में प्रमाणपत्र या समतुल्य ।	

9	10	11	12	13	14
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हा	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति : ऐसे अधिकारी/मजदूरों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और वह इस प्रयोजन के लिये ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो । स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तम्भ 8 में अधिकतम अर्हताएं हैं ।	समूह "ब" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :— 1. अध्यक्ष—कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अन्यून रैंक का एक अधिकारी । 2. सदस्य—दो आफिसर/कनिष्ठ कमीशंड आफिसर/फोरमैन (भाग I) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग I)	लागू नहीं होता ।
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हा	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति : ऐसे अधिकारी/मजदूरों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और वह इस प्रयोजन के लिये ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो । स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तम्भ 8 में अधिकतम अर्हताएं हैं ।	समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे : 1. अध्यक्ष—कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अन्यून रैंक का एक अधिकारी । 2. सदस्य—दो आफिसर/कनिष्ठ कमीशंड आफिसर/फोरमैन (भाग I) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग I) ।	लागू नहीं होता ।

1	2	3	4	5	6	7	8
47	उत्कीर्णक (मशीन)	(2)*	रक्षा सेवाओं में मिलियन समूह "घ" अराजपत्रित औद्योगिक	210-4-226-४० रो०- 4-250-४० रो०-5- 290 ४०	अवयव	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। **	(क) आठवां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य। (ख) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से समुचित कार्य- क्षेत्र या व्यवसाय में प्रमाणपत्र या समतुल्य।
48	अपहोस्टर (पोशिंगसाज)	(122)*	रक्षा सेवाओं में मिलियन समूह "घ" अराजपत्रित औद्योगिक	210-4-226-४० रो०- 4-250-४० रो०-4-290 ४०	अवयव	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। **	(क) आठवां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य (ख) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से समुचित कार्य- क्षेत्र या व्यवसाय में प्रमाणपत्र या समतुल्य।

9	10	11	12	13	14
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : नहीं	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे अधिकारी/मजदूरों में से, जिन्होंने उम्र श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और वह इस प्रयोजन के लिये ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तम्भ 8 में अधिकतम अर्हताएं हैं।	समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होगे :— 1. अध्यक्ष—कमांडेंट/कमान ऑफिसर/कप्तान से अन्यून रैंक का एक अधिकारी। 2. सदस्य—दो ऑफिसर/ कनिष्ठ कमीशंड ऑफिसर/ फोरमैन (भाग I) ज्येष्ठ वार्जमैन (भाग I)।	सागू नहीं होता।
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे अधिकारी/मजदूरों में से जिन्होंने उम्र श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और वह इस प्रयोजन के लिये ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानान्तरण :— रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तम्भ 8 में अधिकतम अर्हताएं हैं।	समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होगे :— 1. अध्यक्ष—कमांडेंट/कमान ऑफिसर/कप्तान से अन्यून रैंक का एक अधिकारी। 2. सदस्य—दो ऑफिसर/ कनिष्ठ कमीशंड ऑफिसर/ फोरमैन (भाग-I) ज्येष्ठ वार्जमैन (भाग-I)।	सागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7	8
49	जीनसाज	(23)*	रक्षा सेवाओं में मिलियन समूह "घ" अराजपत्रित औद्योगिक	210-4-226-४० रो०- 4-250-४० रो०-4-290 ४०	अवयव	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। **	(क) आठवां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य। (ख) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से समुचित कार्य- क्षेत्र या व्यवसाय में प्रमाणपत्र या समतुल्य।

9	10	11	12	13	14
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हा	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे अधिकों/मजदूरों में से, जिन्होंने उम्र श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और बहु इम प्रयोजन के लिये ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तम्भ 8 में अधिकतम अर्हताएं हैं।	समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति मामलों में निम्नलिखित होंगे— 1. अध्यक्ष—कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अनुरूप रेक का एक अधिकारी। 2. सदस्य—डॉ/आफिसर/कनिष्ठ कमीशंड आफिसर/फोरमैन (भाग I) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग-I)	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7	8
50. रंगमाज	(304)*	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह 'घ' अराजकपत्रि औद्योगिक	210-4-226-50 रो-4-250-50 रो-5-290 50	अचयन	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों और आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)।**	(क) आठवां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य/ (ख) किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से समुचित कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में प्रमाणपत्र या समतुल्य।	
51. श्रमिक/मजदूर	जो समय समय पर प्राधिकृत की जाए	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह "घ" अराजकपत्रि औद्योगिक	196-3-220-50 रो-3-232	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष	आठवां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य।	

9	10	11	12	13	14
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हा	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे अधिकों/मजदूरों में से, जिन्होंने उम्र श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और बहु इम प्रयोजन के लिये ली गई विभागीय जांच परीक्षा के आधार पर हो। स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं में उच्चतर या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तम्भ 8 में अधिकतम अर्हताएं हैं।	समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति मामलों में निम्नलिखित होंगे— 1. अध्यक्ष—कमांडेंट/कमान आफिसर/कप्तान से अनुरूप रेक का एक अधिकारी। 2. सदस्य—डॉ/आफिसर/कनिष्ठ कमीशंड आफिसर/फोरमैन (भाग-I) ज्येष्ठ चार्जमैन (भाग-I)	लागू नहीं होता।
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं में समतुल्य या उच्चतर पद धारण करने वाले व्यक्ति।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

टिप्पण--

- * 1. कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
- ** 2. आयु सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख, प्रत्येक मामले में, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (जैसे कि जो अन्तर्मान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।
3. रोजगार कार्यालय में भर्ती की वशा में, निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से अभ्यर्थियों को नामनिर्दिष्ट करने की आशा की जाती है।
- *** 4. अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उम्र वशा में शिथिल की जा सकती है, जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि इनके लिये प्राधिकृत रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

[फाईल 52245/भारत और 4/ई एम ई-सिव-2]

एम०सी० जुनेजा, अवर सचिव

New Delhi, the 7th September, 1982

S.R.O. 233.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in Supersession of the Corps of Electrical and Mechanical Engineers (Industrial) Recruitment Rules, 1975 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Industrial in the Corps of Electrical and Mechanical Engineers namely :—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Corps of Electrical and Mechanical Engineers (Industrial) Recruitment Rules, 1982.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application—These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scales of pay—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 6 to 14 of the schedule aforesaid.

5. Disqualification—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for the appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for Industrials in the Corps of Electrical and Mechanical Engineers

Sl. No.	Name of posts	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Vehicle Mechanic (AFV)	(679)	Civilians in Defence Services Group 'C' Non-Gazetted Industrial	Rs. 380-12-500-EB-15-560	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or order issued by the Central Government)	Essential: (a) Matriculation or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 3 years experience in the trade. ***
**							
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, trades from which promotion to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment		
9	10	11	12	13	14		
Age: No Educational qualification: Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion: Vehicle Mechanic (MV) with 3 years regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer: Persons holding similar or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captain. 2. Members—Two officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chageman (Part I).	Not applicable.		

1	2	3	4	5	6	7	8
							Essential:
2. Engineering Equipment Mechanic	(417) *	Civilians in Defence Services Group 'G', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 380-12-500-EB-12-560-	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government Servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)		(a) Matriculation or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 3 years experience in the trade ***
						**	
3. Tool Maker	(147) *	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted Industrial	Rs. 380-12-500-EB-15-560	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)		Essential: (a) Matriculation or equivalent (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 3 years experience in the trade. ***
						**	
9	10	11	12	13	14		
Age: No Educational Qualification: yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion: Vehicle Mechanic (MV) with 3 years regular service in the grade on the basis of departmental test held for the purpose. Transfer: Persons holding similar or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/officer Commanding/An officer not below the rank of Captain. 2. Members—Two officers/Junior Commissioned Officers/Foreman (Part I)/Senior Chageman (Part I).	Not applicable.		
Age: No Educational Qualifications: Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion: Machinist Turner/Mill-Wright/Fitter/Grinder Precision with 3 years' regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer: Persons holding similar or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in Column 8.	Group 'C' Departmental promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An Officer not below the rank of Captain. 2. Members—Two Officers/Junior Commissioned/Officers Foreman (Part I)/Senior Chageman (Part I).	Not applicable.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Instrument Mechanic (Electrical)	(120) *	Civilian in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 380-12-500-EB-15-560	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)		Essential: (a) Matriculation or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 3 years experience in the trade ***
						**	

9	10	11	12	13	14
Age: No Educational Qualifications: Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion: Electrician/Electrician MV or Refrigerator Mechanic with 3 years' regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer: Persons holding equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman— Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captain. 2. Members— Two Officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chargeman (Part I).	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7	8
							Essential:
5. Electrician (AFV)	(141) *	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 380-12-500-EB-15-560	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)		(a) Matriculation or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 3 years experience in the trade. ***
					**		
6. Instrument Mechanic (Teletype)	(36) *	Civilians in Defence Services Group 'C' Non-gazetted, Industrial	Rs. 380-12-500-EB-15-560	Not applicable	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government Servant in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)		Essential : (a) Matriculation or equivalent (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 3 years experience in the trade. ***
					**		

9	10	11	12	13	14
Age : No Educational Qualifications: Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion: Electrician/Electrician MV or Refrigerator Mechanic with 3 years' regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer : Persons holding equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman— Commandant/Officer Commanding/An Officer not below the rank of Captain. 2. Members— Two Officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chargeman (Part I).	Not applicable.
Not applicable	2 years	100% by transfer, failing which by direct recruitment.	Transfer : Persons holding equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in column 8.	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
7. Instrument Mechanic (Optical)	(99) *	Civilians in Defence Services, Group 'C' Non-gazetted Industrial	Rs. 380-12-500-EB-15-560	Not applicable	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **	Essential (a) Matriculation or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 3 years experience in the trade. ***	
8. Kinema Mechanic	(9) *	Civilians in Defence Services, Group 'C' Non-gazetted, Industrial	Rs. 380-12-500-EB-15-560	Not applicable	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **	Essential; (a) Matriculation or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 3 years experience in the trade. ***	
9. Instrument Mechanic	(74) *	Civilians in Defence Services, Group 'C' Non-gazetted, Industrial	Rs. 380-12-500-EB-15-560	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **	Essential; (a) Matriculation or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 3 years experience in the trade. ***	

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	100% by transfer, failing which by direct recruitment.	Transfer Persons holding equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in column 8.	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	100% by transfer, failing which by direct recruitment.	Transfer Persons holding equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications laid down in column 8.	Not applicable	Not applicable
Age : No; Educational qualifications : Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion Watch Maker; with 3 years' regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer Persons holding equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An Officer not below the rank of Captain. 2. Members— Two Officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chargeman (Part I)	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
10. Telecom Mechanic	(379) *	Civilians in Defence Services, Group 'C' Non-gazetted, Industrial	Rs. 380-12-500-EB-15-560	Not applicable	18 to 25 yrs (Relaxable upto 15 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential: (a) Matriculation or equivalent for Government Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 3 years experience in the trade.	*** **
11. Crystal Grinder	(6) *	Civilians in Defence Services, Group 'C' Non-gazetted, Industrial	Rs. 380-12-500-EB-15-560	Not applicable	18 to 25 years (Relaxable upto 35 yrs. for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential : (a) Matriculation or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 3 years experience in the trade.	*** **
12. Armourer	(337) *	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Non-Selection	18 to 25 yrs. (Relaxable upto 35 yrs. for Government Servant in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government.)	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 2 yrs. experience in the trade.	*** **
9	10	11	12	13	14		
Not applicable	2 years	100% by transfer, failing which by direct recruitment.	Transfer : Persons holding equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in column 8.	Not applicable	Not applicable		
Not applicable	2 years	100% by transfer, failing which by direct recruitment.	Transfer : Persons holding equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in column 8.	Not applicable	Not applicable		
Age : No; Educational Qualifications : Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion : Ship Wright and tradesmen mates with 3 years' regular service in the grade, on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer : Persons holding equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captain. 2. Members— Two Officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chageman (Part I).	Not applicable		

1	2	3	4	5	6	7	8
13. Welder	(373) *	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Non-Selection	18 to 25 yrs. (Relaxable upto 35 yrs. for Government servant in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. ** (c) 2 yrs. experience in the trade. ***	
14. Watch Maker	(9) *	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Non-Selection	18 to 25 yrs. (Relaxable upto 35 yrs. for Government servant in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)	Essential: (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 2 yrs experience in the trade. ** ***	
9	10	11	12	13	14		
Age : No; Educational Qualifications : Yes	2 years	100% by promotions, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion : Black Smith, Tin and Copper Smith or tradesmen mate (Welder) with three years' regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer : Persons holding equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captain. 2. Members— Two officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part 1)/Senior Chargeman (Part I).	Not applicable		
Age : No; Educational Qualifications : Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer failing which by direct recruitment.	Promotion : Tradesmen mate of this trade with 3 years' regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer : Persons holding higher or equivalent posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captain. 2. Members— Two officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part 1)/Senior Chargeman (Part 1).	Not applicable		
1	2	3	4	5	6	7	8
15. Refrigerator Mechanic	(7) *	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Non-Selection	18 to 25 yrs. (Relaxable upto 35 yrs. for Government servant in accordance with the instructions or orders used by the Central Government)	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 2 yrs experience in the trade ** ***	

9	10	11	12	13	14
Age : No ; Educational Qualifications : Yes	2 years	100 % by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion : Tradesmen mate of this trade with three years' regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer : Persons holding higher or equivalent posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/ Officer Commanding /An officer not below the rank of Captain. 2. Members— Two Officers/Junior Commissioned Officer/ Foreman (Part I)/ Senior Chargeman (Part I).	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
16. Turner	(569) *	Civilians in Defence services, Group 'C', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 260-6-326 EB-8-350	Non-Selection	18 to 25 yrs. (Relaxable upto 35 yrs. for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by Central Government)	Essential: (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 2 yrs. experience in the trade. ** ***	
17. Electro-Depositor	(62) *	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 260-6-326 EB-8-350	Non-Selection	18 to 25 yrs (Relaxable upto 35 yrs. for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 2 yrs. experience in the trade. ** ***	

9	10	11	12	13	14
Age : No ; Educational Qualifications : Yes	2 years	100 % by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion : Tradesmen mate of this trade with 3 years' regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer : Persons holding higher or equivalent posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An Officer not below the rank of Captain. 2. Members— Two Officers/Junior Commissioned Officer/ Foreman (Part I)/ Senior Chargeman (Part I)	Not applicable
Age : No ; Educational Qualifications : Yes	2 years	100 % by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion : Tradesmen mate of this trade with 3 years' regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer : Persons holding higher or equivalent posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An Officer not below the rank of Captain. 2. Members— Two Officers/Junior Commissioned Officer/ Foreman (Part I)/ Senior Chargeman (Part I).	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
18. Photostate Operator	(*)	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in appropriate field or trade. (c) 2 years experience in the trade.	
					(**)	(***)	
19. Block Maker	(5) *	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential: (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade (c) 2 years experience in the trade.	
					(**)	(***)	
9	10	11	12	13	14		
Age : No; Educational qualifications : Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion ; Tradesmen mate of this trade with 3 years' regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer: Persons holding higher or equivalent posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/an Officer not below the rank of Captain. 2. Members—Two officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chargeman (Part I).	Not applicable		
Age : No; Educational Qualification : Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion: Tradesmen mate of this trade with 3 years regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer: Persons holding higher or equivalent posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captain. 2. Members—Two officers/Junior Commissioned Officer/Foreman(Part I)/Senior Chargeman (Part I).	Not applicable		
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Electrician/ Electrician(MV)	(172) *	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted Industrial	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 2 years experience in the trade.	
					**	***	

9	10	11	12	13	14		
Age : No Educational quali- fications : Yes	2 years	100% by promotion, failing which by trans- fer, failing which by direct recruitment	Promotion; Tradesmen mate of this trade with 3 years' regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer; Persons holding higher or equivalent posts in Defence Services and possessing the qualifications and experi- ence laid down in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. Chairman—Comman- dant/Officer Comman- ding/An officer not below the rank of Cap- tain. 2. Members:Two officers/ Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/ Senior Chargeman (Part I).	Not applicable		
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Machinist	*(212)	Civilians in De- fence Services, Group 'C', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 260-6-326- EB-8-350	Non- Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Govern- ment servant in accordance with instructions or orders issued by the Central Go- vernment) **	Essential : (a) Eighth standard pass or equi- valent. (b) A certificate from a recogni- sed Industrial Training Insti- tute or equivalent in the appo- priate field or trade. (c) 2 years experience in the trade ***	
22. Vehicle Mechanic (MV)	*(1806)	Civilians in De- fence Services, Group 'C', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 260-6-326- EB-8-350	Non- Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Govern- ment servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **	Essential : (a) Eighth standard pass or equi- valent. (b) A certificate from a recogni- sed Industrial Training Insti- tute or equivalent in the appo- priate field or trade. (c) 2 years experience in the trade. ***	
9	10	11	12	13	14		
Age : No Educational Quali- fications : Yes	2 years	100% by promotion, failing which by trans- fer, failing which by direct recruitment	Promotion ; Tradesmen mate of this trade with 3 years' regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer ; Persons holding higher or equivalent posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of; 1. Chairman—Comman- dant/ Officer Comman- ding/An officer not below the rank of Cap- tain. 2. Members:Two officers/ Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/ Senior Chargeman (Part I).	Not applicable		
Age : No Educational Quali- fications : Yes	2 years	100% by promotion fail- ing which by transfer, failing which by direct recruitment	Promotion; Tradesmen mate of this trade with 3 years' regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer; Persons holding higher or equivalent posts in Defence Services and possessing the qualifications and experi- ence laid down in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of; 1. Chairman—Comman- dant/Officer Comman- ding/ An officer not below the rank of Captain 2. Members:Two Officers/ Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/ Senior Chargeman (Part I).	Not applicable		

1	2	3	4	5	6	7	8
23. Millwright		*(56)	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 2 years experience in the trade. **
24. Pattern Maker		*(26)	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 1 years experience in the trade. ***
9	10	11	12	13	14		
Age : No Educational Qualifications : Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion : Tradesmen mate of this trade with 3 years' regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer : Persons holding higher or equivalent posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captain. 2. Members : Two officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chargeman (Part I)	Not applicable		
Age : No Educational Qualifications : Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment	Promotion : Carpenter and joiner or tradesmen mate of this trade with 3 years' regular service in the grade on the basis of departmental test held for the purpose. Transfer : Persons holding equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captain. 2. Members : Two officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chargeman (Part I).	Not applicable		
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Packer Special		*(18)	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted Industrial	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 2 years' experience in the trade. **

9	10	11	12	13	14
Age : No ; Educational Quali- fications : Yes	2 years	100% by promotion, fail- ing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion Carpenter and Joiner or tra- desmen mate of this trade with 3 years' regular service in the grade, on the basis of a departmental test held for the purpose; Transfer Persons holding equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications and experi- ence laid down in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Chairman—Command- ant/Officer Comman- ding/An officer not be- low the rank of Cap- tain. 2. Members—Two officers/ Junior Commissioned Officer/Foreman(Part I)/ Senior Chargeman (Part I).	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
26. Wood Turner and Machinist	(24) (*)	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 2 years experience in the trade.	
27. Fitter	(1437) (*)	Civilians in Defence Services, Group 'C' Non-Gazetted, Industrial	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential; (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 2 years Experience in the trade.	
					**	***	

9	10	11	12	13	14
Age : No ; Educational Quali- fications : Yes	2 years	100% by promotion, fail- ing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion: Carpenter and Joiner or tra- desmen mate of this trade with 3 years' service in the grade on the basis of a de- partmental test held for the purpose. Transfer : Persons holding higher or equivalent posts in Defence Services and possessing the qualifications and experi- ence laid down in Column 8.	Group 'C' Deptmental Promotion Committee consisting of ; 1. Chairman—Comman- dant/Officer Comman- ding/An officer not be- low the rank of Cap- tain. 2. Members—Two officers/ Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/ Senior Chargeman (Part I).	Not applicable
Age : No ; Educational Quali- fications : Yes	2 years	100% by promotion, fail- ing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion: Engraver (Hand) or Ship Wright or tradesmen mate (Fitter) with 3 years, service in the grade on the basis of a de- partmental test held for the purpose. Transfer: Persons holding highe, or equivalent posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of;— 1. Chairman—Comman- dant/Officer Com-mand- ing/An officer not be- low the rank of Captain. 2. Members—Two officers/ Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/ Senior Chargeman (Part I).	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
28. Grinder Precision	(15) (*)	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 260-6-326-8-EB-350	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 2 years experience in the trade.	
					(**)	(***)	
29. Operator Tyre Repair Plant	(73) (*)	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 225-5-260-6-290-EB-6-308	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 2 years experience in the trade.	
					(**)	(***)	
9	10	11	12	13	14		
Age : No; Educational qualification : Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion: Tradesmen mate of this trade with 2 years regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose: Transfer : Persons holding equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captain 2. Members—Two officers/Junior Commissioned Officer/Foreman(Part I)/Senior Chargeman (Part I).	Not applicable		
Age : No; Educational qualifications : Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion: Tradesmen mate of this trade with 3 years' regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer: Persons holding equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captain. 2. Members—Two officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chargeman (Part I).	Not applicable		
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Tin and Copper Smith	(323) *	Civilian in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 225-5-260-6-290-EB-6-308	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential : (a) Eight standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 1 year experience in the trade.	
					* *		

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Age : No; Educational Qualifications : Yes	2 years.	100 % by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion : Hammerman or tradesmen mate of this trade with 3 years' regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer : Persons holding equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captain. 2. Members—Two officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chageman (Part I).	Not applicable

(1)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31. Blacksmith	(329)*	Civilians in Defence Services, Group 'C' Non-Gazetted, Industrial	Rs. 225-5-260-6-290-EB-6-308	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)**	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 1 year experience in the trade.***	
32. Carpenter and Joiner	(465)*	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 225-5-260-6-290-EB-6-308	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)**	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 1 year experience in the trade.***	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Age : No, Educational Qualifications : Yes	2 years	100 % by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion : Hammerman or tradesmen mate of this trade with 3 years' regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer : Persons holding higher or equivalent posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captain. 2. Members—Two officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chageman (Part I).	Not applicable
Age : No, Educational Qualifications : Yes	2 years	100 % by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion : Packer: ordinary or tradesmen mate of this trade with 3 years' regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer : Persons holding equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captain. 2. Members—Two officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chageman (Part I).	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
33. Ship Wright	*	Civilians in Defence Services, Group 'C' Non-Gazetted.	Rs. 225-5-260-6-290-EB-6-308	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)**	Essential : (a) Eighth standard pass. or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 1 year experience in the trade.***	
34. Engraver (Hand)	(6) *	Civilians in Defence Services, Group 'C' Non-Industrial	Rs. 225-5-260-6-290-EB-6-308	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)**	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institutes or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 1 year experience in the trade.***	
9	10	11	12	13	14		
Age : No.; Educational Qualifications : Yes	2 years.	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion : Tradesmen mate of this trade (Shipwright) with 3 years regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer: Persons holding equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captain. 2. Members—Two officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/ Senior Chergeman (Part I).	Not applicable		
Age: No; Educational Qualifications Yes	2 years	100% by promotion failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion : Engraver (Machine) or tradesmen mate of this trade (Engraver Hand) with 3 years regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer : Persons holding equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An Officer not below the rank of Captain. 2. Members—Two officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chergeman (Part I).	Not applicable		
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Moulder	(50)*	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 225-5-260-6-290-EB-6-308	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)**	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 1 year experience in the trade.***	

9	10	11	12	13	14
Age : No. Educational Qualifications Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion Tradesmen mate of this trade with 3 years' regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer Persons holding higher or equivalent posts in the Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in Column 8.	Group 'C', Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captain. 2. Members—Two officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chargeman (Part I).	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
36. Mason	(19) *	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non- Gazetted, Industrial	Rs. 225-5-260-6- 290-EB-6-308	Non- Selection	18 to 25 years (Re- laxable upto 35 years for Govern- ment servant in accordance with the instructions or or- ders issued by the Central Govern- ment) **	Essential (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recog- nised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 1 year experience in the trade. ***	
37. Engine Driver	(1) *	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non- Gazetted, Industrial	Rs. 225-5-260- 6-290-EB-6-308	Non- Selection	18 to 25 years (Re- laxable up to 35 years for Govern- ment servant in accordance with the instructions or or- ders issued by the Central Government)	Essential (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recog- nised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 1 year experience in the trade.	

9	10	11	12	13	14
Age: No; Educational Qualifications: Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion Tradesmen mate of this trade with 3 years' regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer Persons holding higher or equivalent posts in the Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captain 2. Member—Two officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chargeman (Part I).	Not applicable
Age: No; Educational Qualifications : Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion Stoker on Tradesman Mate (Engine Driver) with 3 years regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer Persons holding higher or equivalent posts in the Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captains. 2. Members—Two officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chargeman (Part I)	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
38. Boiler Attendant	16*	Civilians in Defence Services, Group 'C' Non-Gazetted, Industrial	Rs. 225-5-260-6-290-EB-6-308.	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)**	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade. (c) 1 year experience in the trade.***	
39. Tradesman Mates (Trades at S. No. 12 to 38)	To be held in lieu of Tradesman of different Categories Corresponding number of posts of tradesmen to be held in abeyance, when posts are held by tradesmen mates.	Civilians in Defence Services, Group 'D', Non-Gazetted Industrial	Rs. 210-4-226-EB-4-250-EB-5-290.	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)**	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade.	
Age: No Educational Qualifications: Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion: Stoker or Tradesmen Mate (Boiler Attendant) with 3 years' regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer: Persons holding higher or equivalent posts in the Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in Column 8.	Promotion: Stoker or Tradesmen Mate (Boiler Attendant) with 3 years' regular service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer: Persons holding higher or equivalent posts in the Defence Services and possessing the qualifications and experience laid down in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee Not applicable consisting of— 1. Chariman—Commandant/Officer Commanding/An Officer not below the rank of Captain. 2. Members—Two Officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chargeman (Part I).		
Age: No Educational Qualifications: Yes Note : The educational qualification will not apply in respect of those unqualified Labourers/Mazdoors recruited prior to the issue of Corps of Electrical and Mechanical Engineers (Industrial) Recruitment Rules 1982.	2 years	100% by promotion failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion: Labourers/Mazdoors with 3 years' service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer: Persons holding higher or equivalent posts in the Defence Services and possessing the qualifications laid down in Column 8.	Promotion: Labourers/Mazdoors with 3 years' service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer: Persons holding higher or equivalent posts in the Defence Services and possessing the qualifications laid down in Column 8.	Group 'D' Departmental Promotion Committee Not applicable consisting of— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An Officer not below the rank of Captain. 2. Members—Two Officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chargeman (Part I).		
1	2	3	4	5	6	7	8
40. Equipment and Boot repairer	9*	Civilians in Defence Services Group 'D', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 210-4-226-EB-4-250-EB-5-290.	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)**	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade.	

9	10	11	12	13	14		
Age: No Educational Qualifications : Yes	2 years	100 % by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment	Promotion; Labourers/Mazdoors with 3 years' service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer : Persons holding similar or equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications laid down in Column 8	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captain. 2. Members:—Two Officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chageman (Part I)	Not applicable		
1	2	3	4	5	6	7	8
41. Hammerman	4	Civilians in Defence Services, Group 'D', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 210-4-226-EB-4-250-EB-5-290	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential: (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade.	
42. Brush Hand	1	Civilians in Defence Services, Group 'D', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 210-4-226-EB-4-250-EB-5-290	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential: (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade.	
9	10	11	12	13	14		
Age: No Educational Qualifications : Yes	2 years	100 % by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment	Promotion Labourers/Mazdoors with 3 years' service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer: Persons holding similar or equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications laid down in column 8.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of:— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captain. 2. Members—Two officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chageman (Part I).	Not applicable		
Age : No Educational Qualifications : Yes	2 years	100 % by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment	Promotion: Labourers/Mazdoors with 3 years' service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer: Persons holding similar or equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications laid down in column 8.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of:— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captain. 2. Members—Two officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chageman (Part I).	Not applicable		

1	2	3	4	5	6	7	8
43. Packer Ordinary	(24)*	Civilians in Defence Services Group 'D', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 210-4-226-BB-4-250-EB-5-290	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade.	
44. Stoker	(7)*	Civilians in Defence Services, Group 'D', Non-Gazetted, Industrial.	Rs. 210-4-226-EB-4-250-EB-5-290	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade.	

9	10	11	12	13	14
Age : No; Educational Qualifications : Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion : Labourers/Mazdoors with 3 years' service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer : Persons holding similar or equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications laid down in Column 8.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captain. 2. Members—Two officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/ Senior Chargeman (Part I).	Not applicable
Age : No; Educational Qualifications : Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion : Labourers/Mazdoors with 3 years' service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer : Persons holding similar or equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications laid down in Column 8.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captain. 2. Members—Two officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chargeman (Part I).	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
45. Book Binder	(7)*	Civilians in Defence Services, Group 'D', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 210-4-226-BB-4-250-EB-5-290	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government)	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade.	

9	10	11	21	13	14
Age: No; Educational Qualifications: Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment	Promotion: Labourers/Mazdoors, with 3 years' service in the grade on the basis of a depart- mental test held for the purpose. Transfer: Persons holding similar or equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifica- tions laid down in Column 8.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Comman- dant/Officer Comman- ding/An officer not below the rank of Captain. 2. Members—Two offi- cers/Junior Commis- sioned Officer/Fore- man (Part I)/Senior Chargeman (Part I).	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
46. Tailor	(10) *	Civilians in Defence Services, Group 'D', Non- Gazetted, Industrial	Rs. 210-4-226- EB-4-250-EB- 5-290	Non- Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Govern- ment servant in ac- cordance with the instructions or or- ders issued by the Central Government)	Essential: a Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a re- cognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade.	
					* *		
47. Engraver (Machine)	(2) *	Civilians in Defence Services, Group 'D', Non- Gazetted, Industrial	Rs. 210-4-226- EB-4-250-EB-5- 290	Non- Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Govern- ment servant in ac- cordance with the instructions or or- ders issued by the Central Government)	Essential: (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a re- cognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade.	
					**		

9	10	11	12	13	14
Age: No; Educational Qualifications: Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion: Labourers/Mazdoors with 3 years' service in the grade on the basis of a depart- mental test held for the purpose. Transfer: Persons holding equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications laid down in Column 8.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Comman- dant/Officer Comman- ding/An officer not below the rank of Captain. 2. Members—Two officers/ Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chargeman (Part I).	Not applicable
Age: No ; Educational Qualifications: Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion: Labourers/Mazdoors with 3 years' service in the grade on the basis of a depart- mental test held for the purpose. Transfer: Persons holding equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications laid down in Column 8.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Comman- dant/Officer Comman- ding/An officer not be- low the rank of Captain. 2. Members—Two offi- cers/Junior Commis- sioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Charge man (Part I).	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
48. Upholster	(122)	Civilians in Defence Services, Group 'D' Non-Gazetted, Industrial	Rs. 210-4-226-EB-4-250-EB-5-290	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for the Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade.	
					**		
49. Saddler	(23)	Civilians in Defence Services, Group 'D', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 210-4-226-EB-4-250-EB-5-290	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for the Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential: (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade.	
					**		

9	10	11	12	13	14
Age: No; Educational Qualifications: Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion : Labourers/Mazdoors with 3 years' service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer : Persons holding equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications laid down in Column 8.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captain 2. Members—Two officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chargo-man (Part I)	Not applicable
Age: No Educational Qualifications: Yes	2 years	100% by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion : Labourers/Mazdoors with 3 years' service in the grade on the basis of a departmental test held for the purpose. Transfer : Persons holding equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications laid down in Column 8.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commandant/Officer Commanding/An officer not below the rank of Captain. 2. Members—Two officers/Junior Commissioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Chargo-man (Part I).	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
50. Painter and Decorator	(304) *	Civilians in Defence Services, Group 'D', Non-Gazetted, Industrial	Rs. 210-4-226-EB-4-250-EB-5-290	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential : (a) Eighth standard pass or equivalent. (b) A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate field or trade.	

**

9	10	11	12	13	14
Age: No, Educational Qualifications: yes	2 years	100 % by promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion: Labourers/Mazdoors with 3 years' service in the grade on the basis of a depart- mental test held for the purpose. Transfer: Persons holding equivalent or higher posts in Defence Services and possessing the qualifications laid down in Column 8.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Chairman—Commam- dant/Officer Commam- ding/An officer not be- low the rank of Cap- tain. 2. Members—Two offi- cers/Junior Commis- sioned Officer/Foreman (Part I)/Senior Charge- man (Part I).	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
51. Labourer/ Mazdoor	As authorised from time to time	Civilians in Defence Services, Group 'D', Non- Gazetted, Industrial	Rs. 196-3-220- EB-3-232	Not appli- cable	18 to 25 years**	Essential ; Eighth standard pass or equi- valent.	

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	100 % by transfer, failing which by direct recruit- ment.	Transfer: Persons holding equivalent higher post in Defence Services.	Not applicable	Not applicable

Notes:- *1. Subject to variation/dependent on workload.

**2. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than the Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep).

3. In case of recruitment through the Employment Exchange, the crucial date shall be the last date upto which the Employment Exchanges are expected to nominate candidates.

***4. The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any state of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

[File No. 52245/RR-4/EME Civ. 2]

M.C. JUNEJA, Under Secy.

